



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 20.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना अजनर पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के आदेश तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के नेतृत्व में चलाये जा रहे शराब के अवैध कारोबार पर नियन्त्रण व उसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.05.2021 को **SHO** श्री अभिमन्यू यादव द्वारा गठित टीम ने अभियान में शामिल होकर मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1. सुरेश **S/O** मुन्ना कुशवाहा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सीगौन थाना अजनर जिला महोबा को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से दो बोरियों में 20 अदद क्वार्टर देशी शराब ठेका नाजायज बरामद की गई जिस पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 85/2021 धारा 60 आबकारी एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...।

सुरेश **S/O** मुन्ना कुशवाहा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सीगौन थाना अजनर जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम...।

1. **HCP** श्री बृजविहारी भोड़ले थाना अजनर जनपद महोबा
2. का.विजय कुमार चौकी धवर्वा थाना अजनर जिला महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 20.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के आदेश तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के निर्देशन में श्री संजय कुमार शर्मा द्वारा गठित टीम उ०नि० हेमराज सिंह मय हमराह हे०का० चुन्नूलाल ने अभियान के तहत मुखबिर खास सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 73/21 धारा 354/454 भादवि व 8 पाक्सो एक्ट व 3(2)5क,3(2)5 ब(1)**SC/ST ACT** में वांछित अभियुक्त जीतेन्द्र पुत्र असर्फी यादव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जिला महोबा को बेलाताल तिराहा से गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुये मान० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण...

जीतेन्द्र पुत्र असर्फी यादव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम...

1. उ०नि० हेमराज सिंह
2. हे०का० चुन्नूलाल





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 20.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बांदा द्वारा जनपद के राजपत्रित अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा गोष्ठी...

आज दिनांक 20.05.2021 को श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा, श्री के0 सत्यनारायण द्वारा जनपद भ्रमण/निरीक्षण कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित चौकी भटीपुरा, थाना कोतवाली महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव सहित जनपदीय पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी की गई। गोष्ठी में पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी साथ ही वैश्विक महामारी के मद्देनजर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराये जाने सम्बन्धी तथा रेंज कार्यालय/महोबा पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिए गए साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में वार्ता की गई एवं आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये। इसी क्रम में जनपद के शातिर/पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये, जनपद की कानून-व्यवस्था/पैदल गस्त के दौरान सघन चेकिंग एवं रात्रि में प्रभावी गस्त/पेट्रोलिंग करने के भी निर्देश दिये गये। अधिक से अधिक अपराधियों को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाये जाने पर महोबा पुलिस की तारीफ की गई।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 20.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा द्वारा जनपद आगमन पर कोतवाली महोबा/महिला थाने का औचक निरीक्षण कर दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश...

आज दिनांक 20.05.2021 को श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा, श्री के0 सत्यनारायण द्वारा जनपद भ्रमण के दौरान थाना कोतवाली महोबा/महिला थाना का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान कोविड केयर डेस्क और साथ ही महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा की गई थाना स्तर पर जो भी शिकायतें आई हैं उनको रिकॉर्ड कर कंप्यूटर में भीड करने व पीडित को पावती दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण की समीक्षा की गयी, IG महोदय द्वारा थाना कोतवाली महोबा/महिला थाने में आज क्राइम की समीक्षा की गई है जिसमें दहेज हत्या, बलात्कार कुछ मामलों में वांछित जो प्रीवेंटिव कार्रवाई हैं उसको बढ़ाने पर जोर देने के लिए कहा गया है, सीसीटीएनएस कार्यालय का निरीक्षण कर रिकॉर्ड को लगातार अप टू डेट रखने के निर्देश दिये साथ ही IGRS के माध्यम से प्राप्त शिकायती प्रार्थनापत्रों की समीक्षा की गयी। तत्पश्चात थाना कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। जिसमें रजि0नं0-4 व 8 तथा फ्लाइ शीट, भूमि-विवाद रजि0, महिला उत्पीडन रजि0, एससी/एसटी उत्पीडन रजि0, माल रजि0 सहित आदि रजिस्ट्रो को चेक किया गया तथा माल निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये, इसी क्रम में IG महोदय द्वारा पुलिस कर्मियों से संवाद स्थापित किया गया जिसमें वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से शासन द्वारा लगाये गये कोरोना कर्फ्यू को प्रभावी बनाने व ड्यूटी के दौरान विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेज बहादुर सिंह, प्र0नि0 कोतवाली महोबा बलराम सिंह व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 20.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



आपदा में 112-यूपी की पहल, संक्रमण और कालाबाजारी के प्रति पीआरवी से कर रहे हैं जागरूक महोबा जिले में 01 अप्रैल से अब तक 2051 सूचनाओं पर कार्यवाही की गई एवं जरूरतमंदों को पहुँचायी सहायता



वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस एवं 112 यूपी द्वारा लगातार जनमानस को आपात सहायता प्रदान की जा रही है। वैश्विक महामारी **कोविड-19** के बढ़ते प्रसार को रोकने एवं आवश्यक वस्तुओं जैसे आक्सीजन सिलेंडर, जीवन रक्षक दवायें इत्यादि की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस व 112 यूपी द्वारा कालाबाजारी व जमाखोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चला कर जनमानस को जागरूक किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक-112 यूपी, श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0के0 गौतम के पर्यवेक्षण में जनपद को प्रचार-प्रसार हेतु 112 मुख्यालय लखनऊ द्वारा धन आवंटित किया गया है, आवंटित अनुदान के क्रम में 10 होर्डिंग, 556 पोस्टर छपवाकर विभिन्न स्थानों पर

लगाकर प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है, साथ ही 112 यूपी द्वारा उपलब्ध कराये गए ऑडियो जिंगल महोबा जिले में संचालित 26 पीआरवी में लगे पीए सिस्टम के माध्यम से गाँव, कस्बों और शहरी इलाकों में नागरिकों को कोरोना संक्रमण के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है।

आपदा की इस घड़ी में 112 यूपी लगातार जरूरतमन्द लोगों तक आपात सहायता के साथ कानून-व्यवस्था संभालने का कार्य कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में 01 अप्रैल से अब तक महोबा जिले में 2051 सूचनाओं पर कार्यवाही की गई तथा जरूरतमन्द लोगों तक 112 यूपी की पीआरवी ने सहायता पहुंचायी है, लॉक डाउन के दौरान पीआरवी कर्मियों द्वारा गंभीर मरीजों को दवाई आदि पहुँचाने का कार्य भी किया जा रहा है।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 20.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



30 लीटर अवैध शराब सहित 02 अभियुक्ताओं को श्रीनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार



आज दिनांक 20.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत प्र0नि0 श्रीनगर संजय कुमार शर्मा द्वारा गठित पुलिस/आबकारी टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर कबूतरा डेरा ग्राम सेलामाफ थाना श्रीनगर जनपद

महोबा से 02 नफर अभियुक्ताओं 1. श्रीमती मन्दाकिनी पत्नी तन्नू कबूतरा उम्र लगभग 40 वर्ष 2. श्रीमती संगीता पत्नी पप्पू कबूतरा उम्र 30 वर्ष निवासीगण कबूतरा डेरा ग्राम सेलामाफ थाना श्रीनगर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। **जिनके कब्जे से 15-15 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब बरामद हुई।** जिनके विरुद्ध थाना हाजा पर क्रमशः **मु.अ.सं. 74/21 व 75/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत** कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण:-

1. श्रीमती मन्दाकिनी पत्नी तन्नू कबूतरा उम्र लगभग 40 वर्ष
2. श्रीमती संगीता पत्नी पप्पू कबूतरा उम्र 30 वर्ष निवासीगण कबूतरा डेरा ग्राम सेलामाफ थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार शुक्ला
2. हे0कां0 भारत लाल सरोज
3. म0का0 सावित्री वर्मा
4. आबकारी टीम



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 20.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी नगर/चरखारी के नेतृत्व में पैदल गस्त करके कराया जा रहा लॉकडाउन का पालन

आज दिनांक 20.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में वैश्विक महामारी **कोविड-19** के प्रसार को रोकने हेतु जनपद में लगाये गये लॉकडाउन का पालन कराये जाने के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय एवं सीओ चरखारी श्री उमेश चन्द्र मय पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्रों में पैदल गस्त करके लोगो से लॉकडाउन व कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई एवं मास्क का प्रयोग करने व हाथों को बार-बार धोने व भीड़-भाड़ वाली जगहों पर न जाने को कहा गया। जनपद के समस्त थानों द्वारा क्षेत्र में पैदल गस्त करके लोगो को उक्त नियमों को पालन करने की अपील की गई। यातायात नियमों के उल्लंघन पर **49 ई-चालान व कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर 28 व्यक्तियों से 5600/-रु० शुल्क वसूल किया गया।**

